

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

DRAFT FOR COMMENTS ONLY

(Not to be reproduced without the permission of BIS or used as an Indian Standard)

भारतीय मानक मसौदा संशोधन सं . 1

खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के संसूचन की पद्धतियाँ –
भाग 8: कोएग्युलेज़-पॉज़िटिव स्टेफाइलोकोकाई (स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और अन्य जातियाँ) के
गणन की समस्तर पद्धति
अनुभाग 2: खरगोश जीवद्रव्य फाइब्रिनोजनअगार माध्यम का उपयोग करने वाली तकनीक (पहला पुनरीक्षण)

DRAFT AMENDMENT NO. 1

TO

IS 5887 (Part 8/Sec 2) : 2023/ISO 6888 - 2 : 2021

Methods for Detection of Bacteria Responsible for Food Poisoning

Part 8: Horizontal Method for the Enumeration of Coagulase-Positive *Staphylococci*
(*Staphylococcus Aureus* and Other Species)

Sec 2: Method using Rabbit Plasma Fibrinogen Agar Medium (*First Revision*)
(Adoption of Amendment No. 1 issued in Sep 2023 to ISO 6888 - 2 : 2021)

Food Microbiology Sectional
Committee, FAD 31

Last Date of Comments
01.09.2024

NATIONAL FOREWORD

(Adoption clause will be added later)

This draft Amendment No. 1 is identical with Amendment No. 1 of ISO 6888 - 2 : 2021, 'Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive *staphylococci* (*Staphylococcus aureus* and other species) Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium' issued in 2023 by International Organization for Standardization (ISO).

'FOR COMPLETE TEXT OF THE DOCUMENT, KINDLY REFER Amendment No. 1 to ISO 6888 - 2 : 2021'

Note: The technical content of the document has not been enclosed as these are identical with the corresponding ISO Standard. For obtaining the hard copy of the complete ISO Standard, please contact:

Scientist 'E' and Head

Food and Agriculture Department

Bureau of Indian Standards

Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg

New Delhi-110002

Telefax: 011-23231128, Email: fad@bis.gov.in , fad31@bis.gov.in